

Assignment  
Class 4  
Chapter 2

1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

प्रश्न(च)- साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने किस प्रकार अपने आप को समझाया ?  
उत्तर- साथियों के खिलौनों को देखकर हामिद ने अपने आपको समझाया कि यह तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर( टुकड़े -टुकड़े) हो जाएंगे।

प्रश्न( छ)- चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया?  
उत्तर- चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि चिमटा छह पैसे का था जबकि उसकी जेब में केवल तीन पैसे थे।

प्रश्न (ज)- हामिद ने अपने तीन पैसे चिमटे पर खर्च करना क्यों ठीक समझा?  
उत्तर- तवे से रोटियां उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था । उसने सोचा कि चिमटा पाकर दादी बहुत प्रसन्न होगी और उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी ।

प्रश्न( झ)- अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया?  
उत्तर- चिमटा खरीदने में हामिद का प्यार झलक रहा था। उसके त्याग और विवेक से अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया ।

भाषा से...

2 वचन (Number)

परिभाषा - शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे- लड़का- लड़के

एकवचन		बहुवचन
मिठाई	-	मिठाइयां
उंगली	-	उंगलियां
टोली	-	टोलियां
रेवड़ी	-	रेवड़ियां
दुआ	-	दुआएं
माला	-	मालाएं
सभा	-	सभाएं
बालिका	-	बालिकाएं
चीज़	-	चीज़ें
आवाज़	-	आवाज़ें
औरत	-	औरतें
घोड़ा	-	घोड़े
रुपया	-	रुपए
पैसा	-	पैसे

बगीचा - बगीचे

3 इन शब्दों के विलोम शब्द( उल्टे शब्द) लिखें ।

प्रसन्न × अप्रसन्न	खुशबू × बदबू
आशा × निराशा	अच्छा × बुरा
प्रकाश × अंधकार	समझदार × नासमझ
अमीर × गरीब	सरस × नीरस

4 मुहावरों से वाक्य पूरे करो-

दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना

(क) मिठाई देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ गया।

(ख) बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूद ने लगे।

(ग) खिलौना गिरते ही महमूद का दिल बैठ गया पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा।

5 श्रुतलेख लिखें

पेज 18 के श्रुतलेख को कॉपी में एक शब्द को तीन-तीन बार लिखें।

(नोट- विद्यार्थी कृपया ध्यान दें- अनुनासिक (चंद्रबिंदु) टाइप करने में असुविधा हो रही है इसलिए पुस्तक से देखकर सही- सही वर्तनी लिखें।)